

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014—आषाढ 5, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2014

क्र. एफ 2-1-2014-बाईस-पं-2.— राज्य सरकार, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधित करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय-9क में,—

(1) नियम 72 ग में, उप नियम (3) में, शब्द “निर्वाचक नामावली” के स्थान पर शब्द “मतदाता सूची” स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 72 ज में,—

(क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में, शब्द “निर्वाचक नामावली” के स्थान पर शब्द “मतदाता सूची” स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा.”;

(3) नियम 72 ज में, उपनियम (1) में,—

“(क) मतदाता सूची की मत संख्या की चिन्हित प्रति में नियम 60 (4) (क) में यथा उपबंधित मतदाता क्रमांक को मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 14क में प्रविष्ट करेगा.”;

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द “निर्वाचक नामावली” के स्थान पर शब्द “मतदाता सूची” स्थापित किए जाएं.

(4) नियम 72ठ में, उपनियम (1) में,—

(क) द्वितीय परंतुक में, शब्द “घोषणा” के स्थान पर शब्द “प्ररूप 13क में घोषणा” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 14” के स्थान पर शब्द तथा अंक “प्ररूप 13 ख” स्थापित किए जाएं.

(5) नियम 72ड में, अंक “72” के स्थान पर अंक तथा अक्षर “72ठ” स्थापित किया जाएं;

(6) नियम 72त में शब्द तथा अंक “प्ररूप 18” के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक “प्ररूप 15-क” स्थापित किए जाएं.

(7) नियम 77ख में, उपनियम (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) प्ररूप 16क, 17क, 18क तथा 19क में गणना परिणाम पत्रक में तत्स्थानी प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार प्रविष्टि किए गए विवरण, जो परिणाम पत्रक में दर्ज है प्ररूप 20क, 21क, 22क तथा 23क में घोषित करेगा”;

(8) नियम 77ग में, उपनियम (1) में,—

(क) शब्द तथा अंक “प्ररूप 21” के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 16क, 17क, 18क तथा 19क” स्थापित किए जाएं.

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(3) ई. वी. एम. की नियंत्रण ईकाई (कन्ट्रोल यूनिट) में, जो आयोग द्वारा अनुमोदित है “डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी. एम. एम.)” को फिक्स करने का प्रावधान है. कन्ट्रोल यूनिट के साथ-साथ डी. एम. एम. में भी मतदान का डाटा अभिलिखित होता है. निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद डी. एम. एम. में, मतदान का डाटा सुरक्षित रखते हुए कन्ट्रोल यूनिट का उपयोग अन्य निर्वाचन में किया जा सकता है. आयोग द्वारा कन्ट्रोल यूनिट में प्रयुक्त डी. एम. एम. को कन्ट्रोल यूनिट से पृथक् कर सील करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी. सीलबंद डी. एम. एम. का उपयोग न्यायालयीन प्रयोजन सहित अन्य प्रयोजनों हेतु अति आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा. कन्ट्रोल यूनिट एवं मतपत्र (बैलेट) यूनिट को अन्य निर्वाचन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा.

पंचायत निर्वाचन

प्ररूप-14 क

[म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

का नियम 72 ज (1) (क) देखिये]

मतदाता रजिस्टर

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक (1) . . . . . (2). . . . . (3). . . . . (4) . . . . . (5). . . . . से

पंच का निर्वाचन.

ग्राम पंचायत ..... से सरपंच का निर्वाचन

जनपद पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन

जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक . . . . . खण्ड का नाम .....

क्रमांक	मतदाता का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.

2.

3.

4.

5.

आदि

दिनांक . . . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

## प्ररूप-15 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

का नियम 72त देखिये)

भाग 1-अभिलिखित मतों का लेखा

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक . . . . . से पंच का निर्वाचन\*

ग्राम पंचायत ..... से सरपंच का निर्वाचन \*

जनपद पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन\*

जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन\*

मतदान केन्द्र क्रमांक और नाम ..... कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट क्र. . . . .

## मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का क्रमांक

क्रमांक	पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य
क्र. 1				
क्र. 2				

मशीन का पहचान संख्यांक . . . . . प्रिन्टर क्रमांक (यदि प्रयुक्त हुआ है) . . . . .

डी. एम. एम. का संख्यांक. . . . .

- मतदान केन्द्र में नियत मतदाताओं की कुल संख्या मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
- मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 1.
- मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतदाताओं की संख्या 2.
- नियम 72 ट के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या. 3.
- मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 4.  
(2-3-4=5)
- निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.— 5.  
(क) क्रम संख्या . . . . . से  
. . . . . तक  
(ख) मतदाताओं को जारी किए  
(ग) उपयोग नहीं किये गये
- हरे कागज (ग्रीन पेपर) की सील का लेखा :—  
1. उपयोग के लिये प्रदाय की गई कागज की सीलें कुल संख्या . . . . .  
क्र. सं. . . . . से . . . . . तक  
2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें कुल संख्या . . . . .  
क्र. सं. . . . . से . . . . . तक  
3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें कुल संख्या . . . . .  
क्र. सं. . . . . से . . . . . तक  
4. नष्ट हुई कागज की सीलें यदि कोई हों : कुल संख्या . . . . .  
क्र. सं. . . . . से . . . . . तक

तारीख . . . . .

स्थान . . . . .

नोट.— (1) \* जो लागू न हो काट दें.

(2) प्रत्येक पद के लिये पृथक्-पृथक् अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाना है.

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्र. . . . .

भाग-2 प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई ई. वी. एम. में पाये गये मतों की कुल संख्या . . . . .

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 3 में दर्शायी गई ई. वी. एम. में पाए गए मतों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो . . . . .

तारीख . . . . .

स्थान . . . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम . . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम . . . . .

पंचायत निर्वाचन

प्ररूप-16 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

का नियम 77 ख देखिये)

गणना का परिणाम

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत . . . . . के वार्ड क्रमांक . . . . . से पंच का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . . खण्ड . . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर/नो वोटो की संख्या . . . . .

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या . . . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

पूरे हस्ताक्षर.

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर

के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम . . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

मतगणना का स्थान . . . . .

दिनांक . . . . .

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.



**पंचायत निर्वाचन  
भाग-एक**

प्ररूप-17 क  
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995  
का नियम 77 ख देखिये)  
गणना का परिणाम  
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत .....(खण्ड) ..... से सरपंच का निर्वाचन  
मतदान केन्द्र क्रमांक .....सम्मिलित वार्डों के क्रमांक .....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर/नो वोटो की संख्या .....

(ख) अनफिनिस्ट मतों की संख्या .....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम  
पूरे हस्ताक्षर.

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान .....

नाम .....

दिनांक .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक

अभ्यर्थी का नाम

निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार  
प्राप्त मतों की संख्या

(1)

(2)

(3)

.....

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान . . . . .

नाम .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . . .





अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान .....

नाम .....

दिनांक .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

पंचायत निर्वाचन  
भाग-एक

प्ररूप-18 क  
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995  
का नियम 77 ख देखिये)  
गणना का परिणाम  
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत .....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .....से सदस्य का निर्वाचन  
मतदान केन्द्र क्रमांक .....सम्मिलित वार्डों के क्रमांक .....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर/नो वोटो की संख्या .....

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या .....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम  
पूरे हस्ताक्षर.

.....  
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम .....  
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

मतगणना का स्थान .....

दिनांक .....

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक

अभ्यर्थी का नाम

निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार  
प्राप्त मतों की संख्या

(1)

(2)

(3)

मतगणना का स्थान .....

दिनांक .....

.....  
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

पंचायत निर्वाचन

भाग-दो  
खण्ड स्तरीय

प्ररूप-18 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995  
का नियम 77 ख देखिये)

गणना का परिणाम

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत . . . . . के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन  
.निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की कुल संख्या . . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(क) अन्डर/नो वोटों की संख्या							
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या							

. . . . .  
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान . . . . .

नाम . . . . .  
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . . .

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान . . . . .  
दिनांक . . . . .

नाम . . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

पंचायत निर्वाचन  
भाग-एक

प्ररूप-19 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995  
का नियम 77 ख देखिये)

गणना का परिणाम

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत . . . . .के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से सदस्य का निर्वाचन  
मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . .सम्मिलित वार्डों के क्रमांक . . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

- (क) अन्डर/नो वोटो की संख्या . . . . .  
 (ख) अनफिनिसड मतों की संख्या . . . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
 अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम  
 पूरे हस्ताक्षर.  
 . . . . .

मतगणना का स्थान . . . . .  
 दिनांक . . . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
 के हस्ताक्षर (पंचायत)  
 नाम . . . . .  
 रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मतगणना का स्थान . . . . .  
 दिनांक . . . . .

. . . . .  
 रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर  
 के हस्ताक्षर (पंचायत)  
 नाम . . . . .  
 रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.









## प्ररूप-20 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995)

का नियम 77 ख देखिये)

पंचों के निर्वाचन की विवरणी

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत . . . . . खण्ड . . . . .

वार्ड क्रमांक . . . . . से पंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

मैं, यह घोषित करता हूँ कि:—

नाम . . . . .  
पता . . . . .

सम्यक् रूप से पंच निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान . . . . .  
तारीख . . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.





अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

तारीख . . . . .

. . . . .  
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

## पंचायत निर्वाचन

प्ररूप-22 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

का नियम 77 ख देखिये)

जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत के . . . . . निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से

## जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मैं, यह घोषित करता हूँ कि:—

नाम .....

पता .....

सम्यक् रूप से सदस्य निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान .....

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.





## प्ररूप-23 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995)

का नियम 77 ख देखिये)

जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . से

## जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कंट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मैं, यह घोषित करता हूँ कि:—

नाम .....

पता .....

सम्यक् रूप से सदस्य निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान .....

तारीख . . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.



No. F-2-1-2014-XXII-P-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby make the following amendments in Madhya Pradesh Nirvachan Niyam 1995, the same have been provionly published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

DRAFT OF AMENDMENT

1. In the said rules , in Chapter IX – A,—

(1) in rule 72 C, in sub-rule (3), for the words “electoral roll”, the words “voter list” shall be substituted ;

(2) in rule 72 H, —

(a) in clause (b) of sub-rule (2), for the words “electoral roll”, the words “voter list” shall be substituted;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) require him to affix his signature or mark his thumb impression in the said list.”;

(3) in rule 72 J, in sub-rule (1),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted , namely :—

“(a) record the voter number of the elector as entered in the marked copy of the voter list in a register in form 14 A of voters as provided in rule 60(4)(a)”;

(b) in clause (c), for the words “electoral roll”, the words “voter list” shall be substituted;

(4) in rule 72 L, in sub-rule (1),—

(a) in the second proviso, for the word “declare”, the words “declare in form 13A” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the word and figure “form 14”, the figure and letter, “form 13-B” shall be substituted;

(5) in rule 72 M, in sub-rule(4), for the figure “72” the figure and letter “72L” shall be substituted;

(6) in rule 72P, for the word and figure “form 18” the word and figure “form 15A” shall be substituted;

(7) in rule 77B, in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) corresponding entries made in a result sheet in form 16A, 17A, 18A, 19A and particulars so entered in the result sheet shall be announced in form 20A, 21A, 22A and 23A.”;

(8) in rule 77C, in sub-rule (1),—

(a) for the word and figure “form21” the word, figure and letter, “form 16A,17A, 18A and 19A” shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added at the end, namely :—

“(3) There is a provision to fix the Control Unit “Detachable Memory Module (D.M.M.)” of the E.V.M. approved by the Commission. Along with the Control Unit the voting data is recorded in

D.M.M. also. After the declaration of election results, by keeping the voting data secured in D.M.M., the Control Unit can be used in other election proceeding. The Commission shall prescribe the procedure to seal the D.M.M. used in Control Unit by detaching the same from the Control Unit. The sealed D.M.M. may be used in judicial and other purposes according to the urgency. Control Unit and Ballot Unit shall be used for other election.

**Panchayat Election****Form – 14 A**

[ See rule 72 J(1)(a) of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995]

**Voter Register**

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No. (1)..... (2).....(3).....(4).....(5).....of the Gram Panchayat.....

Election of Sarpanch from the Gram Panchayat.....

Election of Member from the Constituency No..... of the Janpad Panchayat.....

Election of Member from the Constituency No..... of the Zila Panchayat.....

Polling Station No..... Name of the Block.....

Sl. No.	Ward No. of the Voter	Serial number of the voter in the Voter List	Detail of the document produced in proof of his identification by the voter	Signature/ thumb impression of the voter	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date.....

Signature of the Presiding Officer

Name.....

## Form – 15 A

## Panchayat Election

(See rule 72 P of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Part – 1 Writing of recorded votes

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No. .... of the Gram Panchayat..... \*

Election of Sarpanch from Gram Panchayat..... \*

Election of member from Constituency No. . . . . . of Janpat Panchayat

Election of Member from Constituency No. ....of Zila Panchayat.....

Polling Station No. and Name.....Controll Unit No. ....

Number of the Voting Machine used at Polling Station

No.	Panch	Sarpanch	Janpad Panchayat Member	Zila Panchayat Member
No.1				
No.2				

Identification No. of the machine.....

Printer No. (if used).....

D.M.M. No. ....

1. Total number of voters set at a polling station      Signature of the polling agent

2. Total number of voters registered in the voter register      1

3. Number of voters recorded as per the voting machine      2

4. Number of voters no allowed to vote under rule 72 k      3

5. Number of voters decided not to vote (2-3-4=5)      4

6. Total number of tendered votes-	5
(a) Serial Number	From .....to.....
(b) Issued to the voters	
(c) Unused	
7. Account of the seal of green paper –	
1. Paper seals supplied for use	Total Number..... From.....to.....
2. Used paper seals	Total Number..... From.....to.....
3. Unused paper seals returned to the returning officer	Total Number..... From.....to.....
4. Damaged paper seals (if any)	Total Number..... From.....to.....

Date.....

Place.....

Signature of the Presiding Officer  
Polling Station No. ....**Note.**— (1) Please strike out which is not applicable.

(2) Separate account of the recorded votes is to be prepared for each post.

**Part – 2 Result of the Preliminary Counting**

1. Total number of votes found in E.V.M. used in the Polling Station.....

2. In this part specifying the difference in the total numbers of votes as mentioned in item No. 1 and the total number of votes found in E.V.M. as mentioned in item No. 3 of Part -1, if any.

Date.....

Place.....

.....  
Signature of the Counting Supervisor  
Name..........  
Signature of the Returning Officer  
Name.....

**Panchayat Election****Form – 16 A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

**Result of Counting of Panch**

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No..... of the Gram Panchayat.....

Polling Station No..... Block.....

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/no votes.....

(b) Number of unfinished votes.....

Signature of the Counting Supervisor

Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent

Full Signature.....

Place of counting.....

Date.....

Signature of the Returning Officer/  
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name.....

Officer authorised by the Returning Officer

(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.





Panchayat Election  
Part - I

Form - 17A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)  
Result of Counting Of Sarpanch

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Block.....of the Gam Panchayat.....

Polling Station No..... Number of Wards included.....

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

(a) Number of under/no votes.....

(b) Number of unfinished votes.....

Signature of the Counting Supervisor

Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent

Full Signature.....

Place of counting.....

Date.....

Signature of the Returning Officer/  
Asst. Returning Officer (Panchayat).

Name.....

Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat).

Please use the back part also in case of insufficient space.



**Panchayat Election**  
Part - II Block Level**Form – 17 A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

## Result of counting

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Block.....Gram Panchayat.....

Total number of polling stations included.....

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Control Unit					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (a) Number of under/no votes  
(b) Number of unfinished votes

Place of counting.....  
Date.....

.....  
Signature of the Returning Officer/  
Asst Returning Officer (Panchayat)  
Name.....

authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place of counting.....  
Date.....

.....  
Signature of the Returning Officer/  
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name.....

Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)

**Panchayat Election**  
Part – I

**Form – 18-A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No.....of the Janpad Panchayat.....

Polling Station No..... Number of Wards included.....

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/no votes.....  
(b) Number of unfinished votes.....

Signature of the Counting Supervisor  
Name of the Candidate/Election  
Agent/Counting Agent  
Full Signature.....

Place of counting.....  
Date.....

Signature of the Returning Officer/  
Asst Returning Officer (Panchayat)  
Name.....

Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)



**Panchayat Election**  
Part - II Block Level

**Form – 18 A**  
(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)  
Result of counting  
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Member from Constituency No. . . . . of the Janpad Panchayat . . . . .

Total number of polling stations included.....

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit Polling Stationwise					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (a) Number of under/no votes
- (b) Number of unfinished votes

Place of counting.....

Date.....

.....  
Signature of the Returning Officer/  
Asst. Returning Officer (Panchayat)  
Name.....

Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.





**Panchayat Election**

Part – I

## Form – 19 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

## Result of counting

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No.....of the Zila Panchayat.....

Polling Station No.....Number of Wards included... ..

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

(a) Number of under/no votes.....

(b) Number of unfinished votes.....

Signature of the Counting Supervisor  
Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent

Full Signature.....

Place of counting.. . . . .

Date.....

.....  
Signature of the Returning Officer/  
Asst Returning Officer (Panchayat)

Name.....  
Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.



**Panchayat Election**  
Part - II Block Level

Form – 19 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No.....of the Zila Panchayat.....

Total Number of Polling Stations in Constituency No.....of the Zila Panchayat under the Block.....

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit									Total
		Polling Stationwise									
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(a) Number of under/no votes . . . . .

.....

(b) Number of unfinished votes . . . . .

Signature of the Returning Officer/  
Asstt. Returning Officer (Panchayat)

Name.....

Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)

Place of counting.....

Date.....

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit									Total
		Polling Stationwise									
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Place of counting.....  
Date.....

.....  
Signature of the Returning Officer/  
Asstt. Returning Officer (Panchayat)  
  
Name.....  
Officer authorised by the Returning Officer  
(Panchayat)





**Panchayat Election**

**Form – 20 A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting  
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No.....Gram Panchayat..... Block.....

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

I, declare that,—

Name.....

Address.....

is duly elected as Panch.

Place.....

Date.....

.....  
Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.





**Panchayat Election**

**Form – 21 A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of the Election of Sarpanch

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Ward No..... Gram Panchayat..... (Block.....)

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

I, declare that,—

Name.....

Address.....

is duly elected as Sarpanch.

Place.....

Date.....

.....

Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

Date.....

.....  
Returning Officer (Panchayat)

**Panchayat Election**

Form – 22 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of the Election of Member of Janpad Panchayat  
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No..... of Janpad Panchayat.....

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

I, declare that,-

Name.....

Address.....

is duly elected as Member.

Place.....

Date.....

.....

Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.



**Panchayat Election****Form – 23A**

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of the Election of Member of Zila Panchayat  
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No..... of Zila Panchayat.....

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)
----------------	------------------------------	--

I, declare that,-

Name.....

Address.....

is duly elected as Member.

Place.....

Date.....

.....  
Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

Date.....

.....

Returning Officer (Panchayat)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ब्रजेश कुमार**, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 2-1-2014-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 159 दिनांक 24 मार्च 2014 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 संबंधित संशोधन में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा कोष्ठक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं		शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं. (3)
	पृष्ठ (2)	पंक्ति	
शील	318 (1)	नियम 72ख-(4) (क) की द्वितीय पंक्ति	सील
सुसंगत	318 (2)	नियम 72ज (2)(ख) की प्रथम पंक्ति	सुसंगत
मदों	318 (2)	नियम 72ज (2)(ग) की प्रथम पंक्ति	मतों

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.